

नकली शराब के साथ दो तस्कर दबोचे, फैक्ट्री सील

हिन्दुस्तान टीम, मुजफ्फर नगर | Published By: Newsrap

- Last updated: **Wed, 24 Mar 2021 03:40 AM**

क्राइम ब्रांच व शहर कोतवाली पुलिस ने दो शराब माफियाओं को नकली शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों की निशानदेही पर क्राइम ब्रांच ने बुलंदशहर के खुर्जा शहर में पहुंचकर नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में प्रत्येक दिन लगभग 100 पेटी नकली शराब तैयार की जा रही थी। चुनाव के लिए यह अवैध काम बड़े स्तर पर किया जा रहा था।

सोमवार देर रात शहर कोतवाली पुलिस व क्राइम ब्रांच ने पीनना राजवाहे के पास बने एक खंडहर से दो शराब तस्कर पवन कुमार निवासी चीती थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्वनगर व देवरात निवासी मुडाखेड़ा, खुर्जा देहात को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 180 पेटी नकली शराब व सैंट्रो कार जब्त की। पुलिस ने दोनों तस्करों से गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि नकली शराब बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में बनायी जा रही है।

क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को खुर्जा पहुंचकर शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की। खुर्जा शहर में एक पोलट्री फैक्ट्री के बेसमेंट में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री लगायी गयी थी। पुलिस ने छापेमारी करते हुए फैक्ट्री में नकली शराब बना रहे तस्कर रिजवान निवासी शाहीवान कस्बा खुर्जा, सोनू निवासी नगला मोती थाना हाथरस व सुभाष निवासी करतला थाना बागवाला जनपद एटा को गिरफ्तार कर लिया। खुर्जा से गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ खुर्जा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब व शराब बनाने की सामग्री बरामद की है।

पुलिस द्वारा बरामद नकली शराब व अन्य

शराब तस्करों से पुलिस ने 2200 देशी शराब के पच्चे, 600 लीटर ईएनए, 1 हजार लीटर नकली शराब, 30 हजार शराब के खाली पच्चे, एक लाख ढक्कन, एक लाख रैपर, 12 हजार होलोग्राम मिस इंडिया मार्का, 53 हजार रैपर गुड इवनिंग मार्का, 25 हजार रैपर पाँवर हाउस मार्का, 2 केन शराब में मिलाने वाले रंग, 10 खाली ड्रम, ढक्कन सील करने वाली मशीन, आरओ, पानी टंकी आदि सामान बरामद किया गया है। बरामद नकली शराब व अन्य सामान की कीमत लगभग 20 लाख रुपये बतायी गयी है।

चुनाव और होली के लिए तैयार हो रही थी शराब

एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि जनपद व खुर्जा से पकड़े गए तस्करों ने पूछताछ में बताया कि वे पिछले काफी समय से नकली शराब तैयार कर रहे थे। नकली शराब को मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद, मेरठ, बिजनौर समेत अन्य जिलों में सप्लाई की जा रही थी। मुख्य रूप से आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शराब का अवैध कारोबार किया जा रहा था। होली के पर्व पर शराब सप्लाई के लिए बड़ी खेप तैयार की गयी थी।

Source: <https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/muzaffar-nagar/story-two-smugglers-caught-with-fake-liquor-factory-sealed-3933436.html>